



ब्रैम्पटन ऑन्ट्रिप्रीनर सेंटर 12 अप्रैल से क्लाइंट्स के लिए दुबारा खुलेगा

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (8 अप्रैल, 2022) – स्वास्थ्य और सुरक्षा पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के साथ, ब्रैम्पटन ऑन्ट्रिप्रीनर सेंटर (बी.ई.सी.) (Brampton Entrepreneur Centre) (BEC) और को-वर्किंग स्पेस (Co-Working Space), मंगलवार 12 अप्रैल, 2022 से, प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक वीरवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, व्यक्तिगत सेवाओं के लिए दुबारा खुलेगा।

को-वर्किंग स्पेस का प्रयोग करने के लिए आवेदन जमा करना और बी.ई.सी. (BEC) के द्वारा इनके लिए मंजूरी मिलना जरूरी है। आवेदक, Brampton.ca/incubator पर आवेदन जमा कर सकते हैं। जिन आवेदकों को मंजूरी मिलेगी, उनके लिए को-वर्किंग, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध होगा।

4 जुलाई, 2022 के सप्ताह से शुरू करते हुए, को-वर्किंग स्पेस, सप्ताह में तीन दिन खुलेगा। इसके दिन निर्धारित किए जाएंगे।

बी.ई.सी. के कारोबारी सलाहकारों के साथ मशविरे, इस समय वर्चुअल (आभासी) ही रहेंगे और इनके लिए, [एडवांस में बुकिंग \(booked in advance\)](#) करना आवश्यक है। लॉकर्स उपलब्ध नहीं हैं।

हालांकि सिटी की फैसिलिटीज में प्रवेश के लिए चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी नहीं है, फिर भी को-वर्किंग स्पेस के उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि उन लोगों का सम्मान करें, जो मास्क पहनना जारी रखना चाहते हैं। शारीरिक दूरी, कैपेसिटी सीमाएं और प्री-स्क्रीनिंग अब जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार महसूस कर रहा हो तो उसे घर में ही रहना चाहिए।

को-वर्किंग स्पेस में पहुंच वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी होगा कि वह अपने वर्कस्पेस और स्पेस की किसी भी चीज (फोन बूथ/मीटिंग रूम) को प्रयोग करने से पहले और बाद में सैनिटाइज़ करें। सैनिटाइज़ेशन वाइप्स, प्रयोग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

ब्रैम्पटन ऑन्ट्रिप्रीनर सेंटर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Brampton.ca/bec पर जाएं।

-30-

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca